

यदि आप

रिटेल स्टाफ़

हैं तो टैक्स रिटर्न तैयार करते समय आप क्या-क्या क्लेम कर सकते हैं, यह जानना आपके हित में है



काम से संबंधित किसी खर्च को क्लेम करने के लिए यह आवश्यक है कि:

- खर्चा आपने स्वयं किया है और आपको किसी व्यक्ति ने वह वापस नहीं किया है
- खर्च का आपकी आय अर्जित करने से सीधा सम्बन्ध है
- आपके पास खर्च का सबूत है।*

आप किसी भी खर्च का काम से संबंधित हिस्सा ही क्लेम कर सकते हैं। आप किसी खर्च के निजी इस्तेमाल से संबंधित किसी भी भाग के लिए कटौती क्लेम नहीं कर सकते।

* आप साल भर के लिए ए टी ओ एम्प के myDeductions टूल का इस्तेमाल करके अपने खर्चों और रसीदों की जानकारी रख सकते हैं।

कार सम्बन्धी खर्च



✓ **आप** कटौती के लिए **क्लेम कर सकते हैं** यदि आप:

- एक दिन में नौकरी के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं - जैसे कि वेटर की दूसरी नौकरी के लिए यात्रा करना
- एक दिन में एक नियोक्ता के लिए नौकरी के एक स्थान से दूसरे स्थान पर गाड़ी चला कर जाते हैं - जैसे कि एक नियोक्ता के दो अलग स्टोर्स में काम करने के लिए गाड़ी चला कर जाना।

✗ **आम तौर पर आप** काम पर जाने की यात्रा की कीमत **क्लेम नहीं कर सकते**, चाहे आप अपने रोजमर्रा के काम के स्थान से बहुत दूर रहते हों या काम के सामान्य समय के बाहर काम करते हों - जैसे कि देर रात की शॉपिंग या सप्ताहांत की शिफ्ट।

यदि आप कार संबंधी खर्चा क्लेम करते हैं तो आपको एक लॉगबुक रखनी होगी ताकि आप काम के लिए उसके इस्तेमाल के प्रतिशत की गणना कर सकें, या अगर अपने क्लेम के लिए आप सेंट प्रति किलोमीटर का तरीका इस्तेमाल करते हैं तो आपको ए टी ओ को यह दिखाना होगा कि आपकी गणना युक्तिसंगत है।

क्लोदिंग (कपड़ों) का खर्चा



✓ **आप** ऐसी यूनिफॉर्म को खरीदने, किराए पर लेने, उसकी मरम्मत करने और उसे साफ़ रखने के लिए कटौती का **क्लेम कर सकते हैं** जो अद्वितीय है और आपके काम के लिए विशिष्ट है, या जो क्लोदिंग आपकी सुरक्षा के लिए है, और जिसे आपका नियोक्ता आपको पहनने के लिए कहता है।

✗ **आप** काम पर पहने जाने वाले आम कपड़ों को खरीदने या उन्हें साफ़ करने के खर्चों के लिए कटौती **क्लेम नहीं कर सकते**, चाहे आपका नियोक्ता आपको उन्हें पहनने का आदेश देता है और आप उन कपड़ों को सिर्फ़ काम पर ही पहनते हैं, उदाहरण के लिए काली पतलून और सफ़ेद कमीज़ या रोजमर्रा के कपड़े - चाहे वे उस स्टोर में बिकते हों जहाँ आप काम करते हैं।

खाने-पीने से संबंधित खर्च



✓ **आप** ओवरटाइम मील (खाने-पीने) की कीमत के लिए कटौती का **क्लेम कर सकते हैं** यदि:

- आप ओवरटाइम काम करते हैं और उसके दौरान ओवरटाइम मील ब्रेक लेते हैं, और
- आपका नियोक्ता आपको किसी इंडस्ट्रियल क़ानून, अवार्ड या एग्रीमेंट के अंतर्गत ओवरटाइम मील अलाउंस देता है।

✗ एक आम काम के दिन में खाए गए भोजन की कीमत के लिए **आप** कटौती **क्लेम नहीं कर सकते**, क्योंकि यह एक निजी खर्चा है, चाहे आपका नियोक्ता आपको भोजन के खर्चों के लिए कोई अलाउंस भी देता हो।

आपकी पढ़ाई से संबंधित खर्च



✓ यदि आपकी पढ़ाई का कोर्स आपके वर्तमान काम से सीधे रूप से संबंधित है, उदाहरण के लिए कस्टमर सर्विस का कोर्स, तो **आप** उस कोर्स के खर्चों के लिए कटौती **क्लेम कर सकते हैं**।

✗ यदि आपकी पढ़ाई का कोर्स आपके वर्तमान काम से केवल सामान्य रूप से संबंधित है, या वह आपको नई नौकरी प्राप्त करने में सहायता देने के लिए है तो **आप** उसके लिए कटौती **क्लेम नहीं कर सकते**, उदाहरण के लिए हेल्थ एंड वेल-बीइंग का कोर्स।

बनने-सँवरने का खर्चा



✗ **आप** बालों की देख-रेख, प्रसाधन सामग्री, बालों और त्वचा की देख-रेख के प्रसाधनों के लिए कटौती **क्लेम नहीं कर सकते**, चाहे आपका नियोक्ता आपसे कहता है कि आप उनका इस्तेमाल करें और वे आपके काम करने के स्टोर में बिकते हैं - यह आपका निजी खर्च है।

अन्य आम कटौतियाँ



✓ यदि खर्चा आपके काम से संबंधित है तो **आप** निम्नलिखित चीजों की कीमत का काम से संबंधित हिस्सा कटौती के रूप में **क्लेम कर सकते हैं**:

- सेमिनार या कांफ्रेंस
- तकनीकी या आपके व्यवसाय के पब्लिकेशन
- यूनिफ़ॉर्म और प्रोफेशनल एसोसिएशन की फ़ीस

■ यदि आपको काम के लिए लिए निजी साधनों का उपयोग करना पड़ता है तो फ़ोन और इंटरनेट के खर्चों का काम से संबंधित हिस्सा।



यह पूरी जानकारी का केवल सामान्य सारांश है।
अधिक जानकारी के लिए ato.gov.au/occupations पर जाएँ।



Australian Government
Australian Taxation Office